

ग्रीष्मकालीन-अवकाश गृहकार्य

हिन्दी (कक्षा-8)

1. **निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो:**— चंद्र, जल, नदी, पवन, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पृथ्वी, पर्वत, बिजली
2. **निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो:**—आविर्भाव,अभिज्ञ,आर्द्र,अल्प,अगम,आशा,अनुग्रह, अंधकार,आदि,आय,कटु,कृतज्ञ,आलोक,क्रय,अनुपस्थित
3. **निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एकशब्द लिखो:**— फेन से भरा हुआ—,प्रिय बोलने वाली स्त्री—,जिसकी उपमा न हो—,जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो—,जिसका कोई आधार न हो—,नगर में वास करने वाला—,रात में घूमने वाला—,ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला—,मांस न खाने वाला—,बिलकुल बरबाद हो गया हो—,जिसकी धर्म में निष्ठा हो—,देखने योग्य—,बहुत तेज चलने वाला—,जो किसी पक्ष में न हो—,तत्त्व को जानने वाला—,तप करने वाला—
4. **निम्नलिखित समरूपी-भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट करो:**— इतर-इत्र, क्रम-कर्म, परुष-पुरुष, कुट-कूट, कुच-कूच, प्रसाद-प्रासाद, कुजन-कूजन, गत-गात, पानी-पाणि, गुर-गुरु, ग्रह-गृह, प्रकार-प्राकार, चरण-चारण, चिर-चीर
5. **निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 3-3 अर्थ लिखो:**— दल, नग, पयोधर, फल, बाल, मधु, राग, राशि, लक्ष्य, वर्ण
6. **निम्नलिखित में से एक पर अनुच्छेद लिखो**— बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय, अधजल गगरी छलकत जाए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लालच बुरी बलाय, प्रातः काल का भ्रमण
7. **कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखो**— चाँद का तालाब, स्वामी भक्त नेवला, सियार और बजनेवाला ढोल, गधा और चालाक लोमड़ी, बैल और शेर
8. **अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखो ।**
9. **इन लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य-प्रयोग करो**— बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख, बगल में छुरी मुँह में राम, अधजल गगरी छलकत जाए, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, आम के आम गुठलियों के दाम, उँची दुकान फीका पकवान, घर का भेदी लंका ढाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जल में रहकर मगर से वैर, थोथा चना बाजे घना
10. **इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य-प्रयोग करो**— ईद का चाँद, उँगली पर नचाना, कलाई खुलना, काम तमाम करना, कुत्ते की मौत मरना, कोल्हू का बैल, खाक छानना, गड़े मुरदे उखाड़ना, गुलछर्रे उड़ाना, घास खोदना

1. निम्नलिखित शब्दों के शब्दरूप नदी की तरह बनाओ— मोहिनी, श्रावणी
2. अधोलिखित शब्दों के शब्दरूप मातृ की तरह बनाओ—स्वसृ,
3. निम्नलिखित शब्दों के शब्दरूप राजन् की तरह बनाओ— आत्मन्, परमात्मन्
4. अधोलिखित शब्दों के शब्दरूप मुनि की तरह बनाओ— कवि, रवि
5. निम्नलिखित शब्दों के शब्दरूप भानु की तरह बनाओ—शिशु, साधु
6. अधोलिखित धातुओं के लट् लकार के धातुरूप खाद् धातु की तरह बनाओ— भ्रम, लिख
7. निम्नलिखित धातुओं के लृट् लकार के धातुरूप खाद् धातु की तरह बनाओ— खाद, पत
8. अधोलिखित धातुओं के लङ् लकार के धातुरूप खाद् धातु की तरह बनाओ— पठ, क्रीड
9. निम्नलिखित धातुओं के लोट् लकार के धातुरूप खाद् धातु की तरह बनाओ— खेल, धाव
10. निम्नलिखित धातुओं के विधिलिङ् लकार के धातुरूप खाद् धातु की तरह बनाओ— हस, चल